



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2008/पौष 10, 1930

No. 459]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2008/PAUSA 10, 1930

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

संकल्प

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2008

सं. 1/55/2000-डीसीएचएल/समन्वय/एआईएचबी.—

भारत सरकार के संकल्प संख्या 1/55/2000-डीसीएच/समन्वय/एआईएचबी, दिनांक 30 जुलाई, 2008, 27 अगस्त, 2008, 2 सितम्बर 2008, 11 सितम्बर, 2008, 16 सितम्बर, 2008, 23 सितम्बर, 2008, 21 अक्तूबर, 2008, 4 नवम्बर, 2008, 26 नवम्बर, 2008, 1 दिसम्बर, 2008 और 10 दिसम्बर, 2008 में आंशिक संशोधन करते हुए को निम्नलिखित व्यक्तियों को अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है :

1. श्री अशोक कुमार अग्रवाल,
पटेल एग्रीकल्चरल फार्म,
सुभाष गंज,
जिला अशोक नगर,
मध्य प्रदेश-473311
2. श्री जयराम हेगड़े,
5/5ए, सी बर्ड अपार्टमेंट,
114, बी.जे. रोड, बैंड स्टैंड
बांदरा वेस्ट,
मुम्बई-400050

बोर्ड के उपर्युक्त सदस्य हथकरघा क्षेत्र के लिए समग्र विकास कार्यक्रम बनाने में सरकार को सलाह देंगे। उपर्युक्त सदस्य की पदावधि बोर्ड की समयावधि के समवर्ती अर्थात् 30 जुलाई, 2008 से दो वर्ष की होगी।

यह बोर्ड हथकरघा क्षेत्र के समाज-आर्थिक, सांस्कृतिक और कलात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र के समग्र विकास

5083 GI/2008

कार्यक्रम तैयार करने में सरकार को सलाह देगा। यह बोर्ड विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सलाह देगा :—

- (i) देश की कपड़े की आवश्यकता को अधिकाधिक हथकरघा क्षेत्र से पूरा करना;
- (ii) बुनकरों में बेरोजगार और अल्परोजगार को कम करने और उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए हथकरघा क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाना ;
- (iii) हथकरघा की शिल्प परम्परा को बनाए रखना और इसमें अधिक सुधार करना;
- (iv) देश और विदेशों में हथकरघा वस्त्रों के विपणन में वृद्धि करने के लिए कार्य योजना बनाना;
- (v) इस क्षेत्र के लिए विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्र शासित क्षेत्रों के विकासात्मक प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाना;
- (vi) समय-समय पर इस उद्योग के विकास में हुई प्रगति की समीक्षा करना।

इसे माननीय वस्त्र मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

बी. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
FOR HANDLOOMS)

RESOLUTION

New Delhi, the 26th December, 2008

No. 1/55/2000-DCHL/Coordn/AIHB.—In partial modification of Government of India's Resolution No. 1/55/2000-DCH/Coordn/AIHB dated 30th July, 2008,

(1)

27th August, 2008, 2nd September, 2008, 11th September, 2008, 16th September, 2008, 23rd September, 2008, 21st October, 2008, 4th November, 2008, 26th November, 2008, 1st December, 2008 and 10th December, 2008 the following persons has been appointed as Non-Official Member in the All India Handloom Board with immediate effect :

1. Shri Ashok Kumar Agrawal,
Patel Agricultural Farm,
Subhash Ganj,
Distt. Ashok Nagar,
Madhya Pradesh-473311
2. Shri Jayaram Hegde,
5/5A, Sea Bird Apartment,
114, B. J. Road, Band Stand
Bandra West,
Mumbai-400050.

The above newly appointed Members of the Board would advise the Government in the formulation of overall development programme in the Handloom Sector. The term of Office of the above Members will be concurrent with the term of the Board i.e. a period of two years from 30th July, 2008.

The Board will advise the Government in the formulation of the overall development programme in the handloom sector keeping in view socio-economic cultural

and artistic perspective. In particular, the Board will advise the Government regarding achievement of the following objectives :—

- (i) to meet the clothing needs of the country progressively from the handloom sector;
- (ii) to make handlooms an effective instrument of reducing unemployment and underemployment and achieving higher standard of living for weavers;
- (iii) to preserve and further promote the craft heritage of our handlooms;
- (iv) to devise strategies for expanding markets for handlooms within the country and abroad;
- (v) to take steps for effective coordination of the developmental efforts of the various State Governments/Union Territories in this sector; and
- (vi) to review the progress of development from time to time.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister of Textiles.

B. K. SINHA, Jt. Secy.